



SINCE 1974

JYOTI STRUCTURES LIMITED

Corporate Office: Valecha Chambers

6th Floor, New Link Road Oshiwara

Andheri (West) Mumbai -400053

Corporate Identity No: L45200MH1974PLC017494

Ref No: JSL/HO/CS/GEN/24-25/1520

Date: March 04,2025

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001. Scrip Code: 513250	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Mumbai-400 051. Symbol: JYOTISTRUC
--	---

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation as per Regulation 84 of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements), 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations")-Issue of advertisement in newspapers with respect to Extension of Right Issue Timeline.

With reference to the above captioned subject matter, we would like to notify you that, the extension of Rights Issue timeline advertisement has been published on March 04,2025 in the following newspapers

- (i) Financial Express (English National daily newspaper),
- (ii) Jansatta (Hindi National newspaper) and
- (iii) Navshakti (Marathi daily newspaper/Mumbai Edition).

We request you to kindly take the above information on record and disseminated on the website.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Jyoti Structures Limited**

SONALI
KRISHNAJI
GAIKWAD
Digitally signed by
SONALI KRISHNAJI
GAIKWAD
Date: 2025.03.04
11:09:06 +05'30'

Sonali K. Gaikwad
Company Secretary
ACS 31201



CAUVERY NEERAVARI NIGAMA LIMITED
(A Government of Karnataka undertaking)
CIN NO.U45205KA2003SGC032044
Corporate Office: 3rd & 4th Floor, Surface Water Data Centre Building,
Anandarao Circle, Bengaluru- 560 009.
Tel. 080-22352997/22354900
Fax-080-22352998, Email:cnnlaca25@yahoo.com

RECORD DATE FOR PAYMENT OF INTEREST ON SERIES II BONDS.

NOTICE hereby given to all Series II Bond holders of the Nigama that, **RECORD DATE IS ON 10TH MARCH 2025 FOR FINAL REDEMPTION - SERIES II BONDS DUE ON 31ST MARCH 2025.** Final Payment of Bond amount with interest is due on March 31st, 2025. Bond amount and Interest will be paid to those Bond holder's name appears in Registers as on 10th March 2025 as per depository record with NSDL/CDSL.

Date: **27-02-2025**
Place: **Bengaluru**

SD/-
(Mahesha)
Managing Director



ASSAM POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(A Govt. of Assam Public Limited Company)
TENDER NOTICE
Assam Power Distribution Company Limited (APDCL) invites Expression of interest from interested National NGO registered in India for implementation of the Resettlement and Indigeneous Peoples Plan for the ADB funded 1000 MW Assam Solar Project. The details can be downloaded from www.apdcl.org or <https://csrn.adb.org>.
Sd/- Chief General Manager (NRE)
Bijulee Bhawan, Paltanbazar, Guwahati - 01
Please pay your energy bill on time and help us to serve you better!

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

EA/24-25/20



Nippon India Mutual Fund
Wealth sets you free

Nippon Life India Asset Management Limited
(CIN - L65910MH1995PLC220793)
Registered Office: 4th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400 013. Tel No. +91 022 6808 7000
Fax No. +91 022 6808 7097 • mf.nipponindiaim.com

Record Date
March 06, 2025*

Notice is hereby given that the Trustee of Nippon India Mutual Fund ("NIMF") has approved the following Distribution on the face value of Rs. 10/- per unit under Income Distribution Cum Capital Withdrawal (IDCW) option of the undernoted scheme of NIMF, with March 06, 2025 as the record date:

Name of the Scheme(s)	Amount of Distribution (₹ per unit)*	NAV as on February 28, 2025 (₹ per unit)
Nippon India ELSS Tax Saver Fund - Annual IDCW Option	1.50	19.7638
Nippon India ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - Annual IDCW Option	1.50	21.2931
Nippon India ELSS Tax Saver Fund - IDCW Option	2.50	32.5442
Nippon India ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - IDCW Option	3.00	43.0683

*Income distribution will be done, net of tax deducted at source, as applicable.
#For the immediately following Business Day if that day is a non-business day

Pursuant to payment of dividend/IDCW, the NAV of the Schemes will fall to the extent of payout, and statutory levy, if any. The IDCW payout will be to the extent of above mentioned Distribution amount per unit or to the extent of available distributable surplus, as on the Record Date mentioned above, whichever is lower.

For units in demat form : IDCW will be paid to those Unitholders/Beneficial Owners whose names appear in the statement of beneficial owners maintained by the Depositories under the IDCW Plan/Option of the Schemes as on record date.

All unit holders under the IDCW Plan/Option of the above mentioned schemes, whose names appear on the register of unit holders on the aforesaid record date, will be entitled to receive the IDCW.

For Nippon Life India Asset Management Limited
(Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund)
Sd/-
Authorised Signatory

Mumbai
March 03, 2025

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



JYOTI STRUCTURES LIMITED
SINCE 1974

Our Company was incorporated as "Jyoti Structures Private Limited" on May 27, 1974 as a private limited company under the Companies Act, 1956, and was granted the Certificate of Incorporation by the Registrar of Companies, Mumbai (the "ROC"). Subsequently, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company was changed to "Jyoti Structures Limited" on October 21, 1974, vide a fresh certificate of incorporation issued by the ROC.
Registered Office: 6th Floor, Velecha Chambers, New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053, Maharashtra, India,
Contact person: Sonali Krishnaji Gaikwad, Company Secretary and Compliance Officer
Telephone: 022-40915000 | **E-mail id:** investor@jstl.co.in | **Website:** www.jyotisttructures.in | **Corporate Identity Number:** L45200MH1974PLC017494

OUR COMPANY IS A PROFESSIONALLY MANAGED COMPANY AND DOES NOT HAVE AN IDENTIFIABLE PROMOTER FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF JYOTI STRUCTURES LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY

ISSUE OF UP TO 31,19,29,934 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹16 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹14 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹49,908.79 LAKHS) ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 9 RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 26 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FEBRUARY 10, 2025 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 325 OF THE LETTER OF OFFER.
**Assuming full subscription. Subject to finalisation of the Basis of Allotment*

ATTENTION INVESTORS
NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY – CORRIGENDUM CUM ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED FEBRUARY 11, 2025

This notice should be read in conjunction with the Letter of Offer dated February 11, 2025, filed by the Company with the Stock Exchange and SEBI and the ALOF and CAF that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please note the following:
This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Monday, February 17, 2025 and was scheduled to close on Monday, March 03, 2025 has now been extended from Monday, March 03, 2025 to Monday, March 10, 2025, by the Rights Issue Committee in its Meeting held on March 03, 2025 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.
Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Monday, March 10, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, March 10, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE		
Issue Opened on		MONDAY, 17 TH FEBRUARY, 2025
Issue Closing Date*		MONDAY, 10 TH MARCH, 2025
Finalization of Basis of Allotment (on or about)		MONDAY, 17 TH MARCH, 2025
Date of Allotment (on or about)		TUESDAY, 18 TH MARCH, 2025
Date of credit (on or about)		WEDNESDAY, 19 TH MARCH, 2025
Date of listing (on or about)		FRIDAY, 21 ST MARCH, 2025

**Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms on or before the Issue Closing Date. Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the Demat accounts of the Renouncee (s) on or prior to the Issue Closing Date. This Corrigendum cum addendum shall be available on the respective websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and the website of the Company at www.jyotisttructures.in.
Accordingly, there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated February 11, 2025, except for modification in the issue closing date. Change in Issue closing date resultant change in indicative timetable of post issue activities on account of extension of Issue closing date.
INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, COMMON APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS CORRIGENDUM CUM ADDENDUM.*

For JYOTI STRUCTURES LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Sonali Krishnaji Gaikwad
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: March 03, 2025

Jyoti Structures Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and in this regard has filed a Letter of Offer dated February 11, 2025 with the Securities and Exchange Board of India, the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited. The Letter of Offer shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of BSE at www.bseindia.com; the website of NSE at www.nseindia.com; the website of the Company at www.jyotisttructures.in and the website of the Lead Manager at www.aiahntcapital.com. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section titled "Risk Factors" beginning on page 24 of the LOF. This Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") or may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States, except in a transaction exempt from the registration requirements of the U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state of the United States. The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares are being offered and sold in offshore transactions outside the United States in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Entitlements and Rights Equity Shares is permitted under the laws of such jurisdiction.

This advertisement is for information purpose only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or to sell the securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to it in the Letter of Offer dated February 20, 2025 ("Letter of Offer" or "LOF") filed with BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India Limited ("SEBI").



SHRI NIWAS
Leasing & Finance Ltd.

SHRI NIWAS LEASING AND FINANCE LIMITED
Corporate Identity Number: L65993DL1984PLC019141
Registered Office: 47/18, Rajendra Place Metro Station, New Delhi-110060, Delhi, India
Telephone: +91-9891709895; **Email:** shriniwas.limited@gmail.com;
Website: www.shriniwasleasingfinance.in
Contact Person: Mr. Ravi Kumar Dhaker, Company Secretary and Compliance Officer;

Our Company was originally incorporated on September 26, 1984, in Delhi as Shri Niwas Leasing and Finance Limited as a public limited Company under the erstwhile Companies Act, 1956, and were granted the certificate of incorporation by the Registrar of Companies at Delhi. The Corporate Identification Number of Our Company is L65993DL1984PLC019141. For further details please refer to the section titled "General Information" beginning on page 44 of this Letter of offer.

OUR PROMOTERS: MR. SURENDRA KUMAR JAIN

ISSUE OF UP TO 3,99,70,000 PARTLY PAID UP EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT A PRICE OF ₹ 10 PER EQUITY SHARE ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹ 3,99,70,000 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SHRI NIWAS LEASING AND FINANCE LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") IN THE RATIO OF 10 (TEN) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE HELD BY SUCH ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON THURSDAY, FEBRUARY 27, 2025 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 171 OF THE LETTER OF OFFER.
**Assuming full subscription*

FOR ATTENTION OF THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY ONLY

ISSUE PROGRAMME		ISSUE CLOSING ON
ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATIONS*	
THURSDAY, MARCH 06, 2025	MONDAY, MARCH 17, 2025	THURSDAY, MARCH 20, 2025

**Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.
#Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time but not exceeding 30 (thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.*

ASBA*
Simple, Safe, Smart way of Application.
* Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.

PROCESS OF MAKING AN APPLICATION IN THE ISSUE
In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Master Circular and the ASBA Circulars, all Shareholders desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Shareholders should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, see "Procedure for Application through ASBA facility" on Page 174, of the Letter of Offer.

● Making of an Application through the ASBA process
Shareholders, wishing to participate in this Issue through the ASBA facility, are required to have an ASBA enabled bank account with an SCSB, prior to making the Application. Shareholders desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCSB or online/ electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.
Shareholders should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorization to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application. For details of making application through ASBA process, Eligible Equity Shareholders are advised to refer to "Procedure for Application through ASBA facility" on page 174 of the Letter of Offer.

● Making of an Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form
In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Master Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company by sending a letter to the Registrar containing the name(s), address, e-mail address, contact details and the details of their demat account along with copy of self-attested PAN and self-attested client master sheet of their demat account either by e-mail, post, speed post, courier, or hand delivery so as to reach to the Registrar not later than two Working Days prior to the Issue Closing Date, i.e. on or before Thursday, March 20, 2025, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date.
Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company namely Shri Niwas Leasing and Finance Limited - Right Entitlement Suspense Escrow account.
Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form are advised to refer to the procedure for Application by and credit of Rights Equity Shares in "Making of an Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form" on page 175 of the Letter of Offer.

● Making of an Application by Eligible Equity Shareholders on Plain Paper under ASBA process
An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form as detailed above. In such cases of non-receipt of the Application Form through e-mail or physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the website of the Registrar or Stock Exchange. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address or is a U.S. Person or in the United States.
Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.
For details regarding making application on plain paper, Eligible Equity Shareholders are advised to refer to "Making of an Application by Eligible Equity Shareholders on Plain Paper under ASBA process" on page 183 of the Letter of Offer.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS
In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Master Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in the account of the IEPF authority; or (b) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or the Equity Shares which are lying in the unclaimed suspense account (including those pursuant to Regulation 39 of the SEBI LODR Regulations) or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (c) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (d) credit of the Rights Entitlements returned/reversed/failed; or (e) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings, if any; or (f) non-institutional equity shareholders in the United States.

PLEASE NOTE THAT IF NO APPLICATION IS MADE BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF RIGHTS ENTITLEMENTS ON OR BEFORE ISSUE CLOSING DATE, SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS SHALL GET LAPSED AND SHALL BE EXTINGUISHED AFTER THE ISSUE CLOSING DATE. NO EQUITY SHARES FOR SUCH LAPSED RIGHTS ENTITLEMENTS WILL BE CREDITED, EVEN IF SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS WERE PURCHASED FROM MARKET AND PURCHASER WILL LOSE THE PREMIUM PAID TO ACQUIRE THE RIGHTS ENTITLEMENTS. PERSONS WHO ARE CREDITED THE RIGHTS ENTITLEMENTS ARE REQUIRED TO MAKE AN APPLICATION TO APPLY FOR EQUITY SHARES OFFERED UNDER RIGHTS ISSUE FOR SUBSCRIBING TO THE EQUITY SHARES OFFERED UNDER ISSUE.

LAST DATE FOR APPLICATION
The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is, Thursday, March 20, 2025, i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).
If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchange and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as set out in "Basis of Allotment" on page 202 of the Letter of Offer.
Please note that on the Issue Closing Date applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchange.
Please ensure that the Application Form and necessary details are duly filled in. In place of Application number, Shareholders can mention the reference number of the e-mail received from Registrar informing about their Rights Entitlement or last eight digits of the demat account. Alternatively, SCSBs may mention their internal reference number in place of application number.

ALLOTMENT OF THE EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM
PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES APPLIED FOR IN THIS ISSUE CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH OUR EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE.
FOR PROCEDURE OF APPLICATION BY SHAREHOLDERS WHO HAVE PURCHASED THE RIGHT ENTITLEMENT THROUGH ON MARKET RENUNCIATION/OFF MARKET RENUNCIATION, PLEASE REFER TO HEADING TITLED "PROCEDURE FOR APPLICATION THROUGH ASBA FACILITY" ON PAGE 174 OF THE LETTER OF OFFER.

LISTING
The equity shares of Shri Niwas Leasing And Finance Limited ("Company") are listed on the BSE Limited ("BSE"). The Company has received in-principle approval from BSE for the listing of the Rights Equity Shares proposed to be issued, as per the letter dated March 07, 2024. The company will also make application to BSE to obtain trading approval for the Rights Entitlement as required under SEBI ICDR Master Circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2024/0154, dated November 11, 2024. For the purposes of the Rights Issue, BSE shall be the Designated Stock Exchange.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI
This Draft Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of issue is less than Rs. 5,000 Lakhs. However, the Letter of Offer will be filed with SEBI.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE
It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited.

DISPATCH AND AVAILABILITY OF ISSUE MATERIALS
In accordance with the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Relaxation Circulars and SEBI Master Circular, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other issue material will be sent/ dispatched only to the Eligible Equity Shareholders who have provided an Indian address. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other issue material will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other issue material will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.
Further, the Letter of Offer will be sent/ dispatched to the Eligible Equity Shareholders who have provided an Indian address and who have made a request in this regard. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Letter of Offer will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Letter of Offer will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.
In accordance to above, the dispatch of Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter and Application Form has been completed in electronic form through email and physically through registered post/speed post on **Saturday, March 01, 2025** by the Registrar.
Shareholders can access the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Equity Shares under applicable laws) on the websites of: (i) our Company at www.shriniwasleasingfinance.in; (ii) the Registrar at www.skylinert.com; (iii) the Stock Exchange at www.bseindia.com.
Eligible Equity Shareholders can also obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (i.e., www.skylinert.com) by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (for Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) and PAN. The link for the same shall also be available on the website of our Company (i.e., www.shriniwasleasingfinance.in).

OTHER IMPORTANT LINKS AND HELP LINE
The Shareholders can visit following links for the below-mentioned purposes: a) Frequently asked questions and online/ electronic dedicated Shareholders helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Shareholders: www.skylinert.com; b) Updation of e-mail address/ mobile number in the records maintained by the Registrar or our Company: www.skylinert.com; c) Updation of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form: www.skylinert.com; d) Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non-resident Eligible Equity Shareholders at email id at ipo@skylinert.com.
Investors may contact the Registrar or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue or post-issue related matter. All grievances relating to the ASBA process, with a copy to the SCSBs (in case of ASBA process), giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), E-mail address of the sole first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process). For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" on page 171.

BANKER TO THE ISSUE AND REFUND BANK: HDFC Bank Limited
MONITORING AGENCY: Not Applicable
FOR RISK FACTOR AND OTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE LETTER OF OFFER/ABRIDGED LETTER OF OFFER

ISSUER COMPANY	REGISTRAR TO THE ISSUE
 <div>SHRI NIWAS Leasing & Finance Ltd.</div> <div>SHRI NIWAS LEASING AND FINANCE LIMITED CIN: L65993DL1984PLC019141 Registered Office: 47/18, Rajendra Place Metro Station, New Delhi-110060, Delhi, India Tel: +91-9891709895; E-mail: shriniwas.limited@gmail.com Website: www.shriniwasleasing.in Contact Person: Mr. Ravi Kumar Dhaker, Company Secretary and Compliance Officer</div>	 <div>Skyline FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED</div> <div>SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED CIN: U74899DL1995PTC071324 Registered Office: D-153A, Ist Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi- 110020 Tel: 011-40450193-97; Fax: 011-26812682 E-mail: ipo@skylinert.com Investor Grievance Email: grievances@skylinert.com Website: www.skylinert.com Contact Person: Mr. Anuj Rana SEBI Registration No.: INR000003241</div>

Disclaimer:
Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with BSE Limited (BSE) and the Securities and Exchange Board of India. The Letter of Offer is expected to be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involve a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 22 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

For SHRI NIWAS LEASING AND FINANCE LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Ravi Kumar Dhaker
Company Secretary and Compliance Officer

Date: March 01, 2025
Place: New Delhi

financialexpapri.in



सावधानी सूचना

आम जनता को ऐसे व्यक्तियों/बैंडमैन एजेंसियों से सावधान रहने के लिए आगाह किया जाता है जो स्टाइसएण जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेशकों को स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्वोरिटीज (इंडिया) लि. के रूप में गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और धोखाधड़ी से लाभ कमाने के लिए कथित तौर पर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे निवेश अक्सर प्रदान करने वाले स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्वोरिटीज (इंडिया) लि. या स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रुप से जुड़े होने का दावा करने वाले ऐसे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रसारित किए जा रहे किसी भी संचार/सलाह में शामिल होने या उस पर भरोसा करने से बचें। आगे यह भी सूचित किया जाता है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्वोरिटीज (इंडिया) लि. किसी भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंस्टीट्यूशनल अकाउंट या एससी-आईटीओपी जैसे मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ट्रेडिंग सलाह की पेशकश नहीं करता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्वोरिटीज (इंडिया) लि. और/या स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रुप उपर्युक्त चैनलों के तहत प्रदान की गई सलाह या जानकारी पर भरोसा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा होने वाली किसी भी हानि/नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हस्ता./-

कुने स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्वोरिटीज (इंडिया) लि.

दूसरा तल, 23-25 एम.जी. रोड, महाराष्ट्र, मुंबई - 400 001

बजाज फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ऑफ पुणे- अहमदनगर, विमान नगर, पुणे - 411014

शाखा कार्यालय: बजाज फाइनेंस लिमिटेड, दूसरी मंजिल, सीला लॉपी, खसरा नंबर 3673/31, संजय काफ़े, सामने। होटल मिडटाउन, जेटी रोड, पानीपत, हरियाणा 132103



कच्चा सूचना (अवल सम्पत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ परिशिष्ट-IV के अनुसार)

जबकि, अपोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा बजाज फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदान शक्तियों के उपयोग में कथित सूचनाओं के प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सूचना में निम्नलिखित त्रुटिबद्ध कृत बकया यति का पुनर्निर्माण करने को कहते हुए निम्नलिखित कर्जदार(8)/व्यवकर्ता(ओं)/व्यवमान(यों) को जबरजस्त प्रारंभ द्वारा मौल सूचना ('सूचना') निम्न की थी।

कर्जदार(8)/व्यवकर्ता(ओं)/व्यवमान(यों) के रालि के पुनर्निर्माण में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदार(8)/व्यवकर्ता(ओं)/व्यवमान(यों) को तथा उनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अपोहस्ताक्षरी ने वेबसाइट पर निम्नलिखित सूचना दी थी और वे कथित निम्नलिखित सूचना के साथ पठित धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान शक्तियों के उपयोग में नहीं होने परीक्षित करने पर संतुष्टिबद्ध कथना कर दिया है। एतद्वारा वित्तीय रूप से कर्जदार(8) को तथा व्यवसाय को वित्तीय समर्थन के अभाव में कोई संभावना नहीं बनने की शक्यता दी जाती है और कथित सम्पत्ति के साथ कोई संभवधार नहीं होने परीक्षित राजि तथा भुगतान/वसूली की वित्ति तर्क अनुबंध दर पर उदा पर भावी खराब और लातानों, प्रचुरी आदि हेतु बजाज फाइनेंस लिमिटेड के प्रचार का विवरण होता।

प्रतिभूत आसितियों को विनिर्माण करने के लिए उपलब्ध समग्र-सीमा के परिधेय में कर्जदार का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अग्र खता सं./कर्जदार सं./व्यवकर्ता(ओं)/व्यवमान(यों) का नाम तथा पता	प्रतिभूत अवल सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि तथा धारा 13(2) के तहत सूचना प्रति तला कर्ने की तिथि
517FSP43304201 नितला हैड्वुन (कर्जदार) पता - 955/9 काशी गिरि मंदिर के सामने, सनोली रोड, पानीपत, हरियाणा-132103 दुर्गा प्रसाद (सह-कर्जदार) और सोनिया सुंदर (सह-कर्जदार) और हरियाणा प्रसाद (सह-कर्जदार) सभी पता- भसानन - 1476 न्यू हारसिंग बॉयड कॉलोनी, पानीपत, हरियाणा-132103	संपत्ति का समस्त भाग, दुकान नं. 8, क्षेत्रफल 69.79 वर्ग मी, वाई नं. 9 में स्थित, नाम निम्न की भांग के भीतर। हतरील और खिला पानीपत, वीर जी स्टीडर के सामने, सनोली रोड, पानीपत, हरियाणा-132103। सीमाएं - पूर्व: नली, पश्चिम: मिठाई की दुकान, उत्तर: नंद लाल, दक्षिण: - अशोक कुमार राय	23/11/2024 रु. 50,04,732/- (रुपये पचास लाख चार हजार त्तरा तीस बीस लाख) तिथि 15.11.2024 तक
	कच्चे की तिथि 28/02/2025	

तिथि: 04.03.2025, स्थान: पानीपत

हस्ता./- अधिकृत प्राधिकारी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड

ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड					
(पूर्व में ओरिए अंडी फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से) (ओरिक्स अंडी फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड की सार्वजनिक कम्पनी) पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 84, मोदी को-ऑपरेटिव इंडियन स्टेट्स, अप्री-कुर्ने रोड, अहमदाबाद (गु.) मुंबई - 400 005					
ईमेल: info@orixindia.com www.orixindia.com सीआईएन: U74900MH2006PLC163937					
कच्चा सूचना					
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 का नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV)					
नैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम, 2002) के अंतर्गत ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कथित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राजि का पुनर्निर्माण करने की कहते योग्य सूचना जारी की गयी थी।					
अग्रधारण इस राजि तथा भावी ध्यान एवं अन्य प्रचुरी को ध्यान में लीटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा अग्रधारण तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अपोहस्ताक्षरी ने उक्त निष्पत्तियों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उक्त प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां योग्य परीक्षित सम्पत्ति का कच्चा कर दिया है।					
विशेष रूप से कर्जदार, और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सहायिता के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है परीक्षित राजि के लिए ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्रचार के अंतर्गत अहमदाबाद प्रतियुक्त आसितियों को विनिर्माण करने के लिए उपलब्ध समग्र-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्टित किया जाता है।					
क्र.सं.	अग्र खता सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम	मौल सूचना का तिथि तथा राशि	किये गये कच्चे की तिथि एवं प्रचार	अवल सम्पत्तियों का विवरण
1.	LN0000000020054	1. मेसरस राहुल बिल्डिंग्स मटेरियल कैपिटल, 2. मेसरस राहुल एंटरप्राइजेस, 3. हेमंत यादव (स्वामि गुरुते कुमारा यादव के उपस्थिति कानूनी उपाधिकारी की हैसियत से) 4. हेमंत यादव	17-दिस-2024 तथा रु. 54,72,573.34/-	25 फरवरी, 2025 (संकेतिक कच्चा)	संपूर्ण प्रथम तल का समस्त भाग, कवर्ड क्षेत्रफल 129.824 वर्ग मीटर लगभग (1397.54 वर्ग फीट) ब्रिस्टल रोड, मोहन क्षेत्र, तीन बेडरूम, तीन बीकामर, ड्रेस रूमिंग, रॉड, स्टिरल/ब्राइड फ्लोर और ड्रेस फ्लोर पर अनुमानित हिससे के साथ-साथ अधिवासी, अधिवासी और अनुवासीत 1/4 हिस्सा आवासीय प्लॉट नंबर 6, स्ट्रीट नंबर टीडब्ल्यूएन-003, सेनेटीन एंटेव-एवेन्यू, आवासीय कॉलोनी में स्थित, वाटिका इंडिया नेक्स्ट, सेक्टर- 84, गांव सिरो, सिकंदरपुर ब्ला, शिकोहापुर, महाराष्ट्र; मासेसर, जिला: मुख्याम, हरियाणा-122004 और इसके आसपास स्थित है और पूरा प्लॉट की सीमाएं: पूर्व: अन्य प्लॉट पश्चिम: सड़क उत्तर: सड़क दक्षिण: अन्य प्लॉट

This is an advertisement for information purposes only and not for publication, distribution or release, directly or indirectly, outside India. This is not an announcement for the document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to it in the Letter of Offer dated February 11, 2025 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and the Stock Exchanges, namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and together with BSE, "Stock Exchanges").

JYOTI STRUCTURES LIMITED
SINCE 1974

Our Company was incorporated as "Jyoti Structurers Private Limited" on May 27, 1974 as a private limited company under the Companies Act, 1956, and was granted the Certificate of Incorporation by the Registrar of Companies, Mumbai (the "RoC"). Subsequently, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company was changed to "Jyoti Structures Limited" on October 21, 1974, vide a fresh certificate of incorporation issued by the RoC.

Registered Office: 6th Floor, Velecha Chambers, New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053, Maharashtra, India,
Contact Person: Sonali Krishnaji Gaikwad, Company Secretary and Compliance Officer
Telephone: 022-40915000 | E-mail id: investor@jisl.co.in | Website: www.jyotistructures.in | Corporate Identity Number: L45200MH1974PLC0179494

OUR COMPANY IS A PROFESSIONALLY MANAGED COMPANY AND DOES NOT HAVE AN IDENTIFIABLE PROMOTER

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF JYOTI STRUCTURES LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY

ISSUE OF UP TO 31,19,29,934 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹16 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹14 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹49,908.79 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 9 RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 26 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FEBRUARY 10, 2025 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 325 OF THE LETTER OF OFFER.

**Assuming full subscription. Subject to finalisation of the Basis of Allotment*

ATTENTION INVESTORS

NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY - CORRIGENDUM CUM ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED FEBRUARY 11, 2025

This notice should be read in conjunction with the Letter of Offer dated February 11, 2025, filed by the Company with the Stock Exchange and SEBI and the ALOF and CAF that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please note the following:

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Monday, February 17, 2025 and was scheduled to close on Monday, March 03, 2025 has now been extended from Monday, March 03, 2025 to Monday, March 10, 2025, by the Rights Issue Committee in its Meeting held on March 03, 2025 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Monday, March 10, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, March 10, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE		
Issue Opened on		MONDAY, 17 TH FEBRUARY, 2025
Issue Closing Date*		MONDAY, 10 TH MARCH, 2025
Finalization of Basis of Allotment (on or about)		MONDAY, 17 TH MARCH, 2025
Date of Allotment (on or about)		TUESDAY, 18 TH MARCH, 2025
Date of credit (on or about)		WEDNESDAY, 19 TH MARCH, 2025
Date of listing (on or about)		FRIDAY, 21 ST MARCH, 2025

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms on or before the Issue Closing Date. Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the Demat accounts of the Renouncee (s) on or prior to the Issue Closing Date. This Corrigendum cum addendum shall be available on the respective websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and the website of the Company at www.jyotistructures.in. Accordingly, there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated February 11, 2025, except for modification in the issue closing date. Change in issue closing date resultant change in indicative timetable of post issue activities on account of extension of issue closing date.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, COMMON APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS CORRIGENDUM CUM ADDENDUM.

For JYOTI STRUCTURES LIMITED
On behalf of the Board of Directors

Sd/-
Sonali Krishnaji Gaikwad
Company Secretary and Compliance Officer

Jyoti Structures Limited is proposing, subject to regulatory approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and in this regard has filed a Letter of Offer dated February 11, 2025 with the Securities and Exchange Board of India, the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited. The Letter of Offer shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of BSE at www.bseindia.com; the website of NSE at www.nseindia.com; the website of the Company at www.jyotistructures.in and the website of the Lead Manager at www.arhantcapital.com. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section titled "Risk Factors" beginning on page 24 of the LOF. This Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") or may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States, except in a transaction exempt from the registration requirements of the U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state of the United States. The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares are being offered and sold in offshore transactions outside the United States in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Entitlements and Rights Equity Shares is permitted under the laws of such jurisdiction.

मेगास्टार फूड्स लिमिटेड
सीआईएन : L15311CH2011PLC033393
पंजीकृत कार्यालय : श्रृंखंड सं. 807, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, चंडीगढ़- 160002
दूरभाष : +91 172 2653807, 5005024
संक्रम : कुलीनी-रोपड़ मार्ग, बाग सोलिया- 140108, जयपुर रूयनगर, पंजाब
दूरभाष : +91 1881 2440403,2440406 वेबसाइट : www.megastarfoods.com,
ई-मेल : cs@megastarfoods.com

पोस्टल बैलेट की सूचना

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 108 और 110 के प्रावधानों और आम लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (समय-समय पर संशोधित) (नियम) के नियम 20 और 22 तथा सीबी (लिस्टिंग) दलित और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम, 2015 (सीबी लिस्टिंग अधिनियम) के नियम 44 और अन्य लागू कानूनों और विनियमों, सामान्य परिपत्र संख्या 9/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024, सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 26 सितंबर 2023 को सभी पहले के परिपत्रों के साथ पड़ा गया, विशेष रूप से परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 और परिपत्र संख्या के संदर्भ में। कोर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ("एसपीसी परिपत्र") द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्रों में दिए गए दांते के अनुसार साधारण और विशेष प्रस्तावों को पारित करने के विषय पर 8 अप्रैल, 2020 की तारीख के आधार संख्या 14/2020 के अनुसार, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("एसएस-2") द्वारा जारी आम बैठक पर सचिवीय मानक और किसी भी अन्य लागू कानून, नियम और अधिनियम (किसी भी वैधानिक संशोधन या वर्तमान में लागू पुनः अधिनियमन सहित), कि पोस्टल बैलेट नोटिस में निहित प्रस्तावों को संश्लेषणकों द्वारा एसपीसी परिपत्रों के साथ अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुपालन में केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करके पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है। नोटिस में निर्धारित ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के माध्यम से किए जाने वाले प्रस्तावित विशेष व्यवधान को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अपरिहार्य माना गया है।

सदस्यों, निदेशकों और लेखापरीक्षकों को अनुमत माध्यम अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्याख्यात विवरण के साथ डाक मत्पत्र नोटिस भेजने का कार्य 03.03.2025 को पूरा हो गया है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 के प्रावधानों के अनुपालन में, समय-समय पर शांतिपूर्ण कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 और 22 तथा सीबी लिस्टिंग अधिनियम के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है, ताकि वे ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें और संचित डिवाइसों से संचित लिमिटेड (सीएसएसएल) द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से कार्रवार किया जा सकें।

ई-वोटिंग के लिए विनिर्देश डाक मत्पत्र नोटिस में दिए गए हैं, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें -

क. ई-वोटिंग सुचारु रूप से, मार्च 2025 (09.00 पूर्वाह्न) से शुरू होगी और पुनरावृत्त, 03 अप्रैल, 2025 (05.00 अपराह्न) आईएसटी पर समाप्त होगी। सदस्य बाक वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूलर अंशक कर दिया जाएगा और उक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख. सदस्यों के वोटिंग अधिकार (ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए) सुक्रवार, 28 फरवरी, 2025 (समयान समय) ("कट ऑफ तिथि") को कंपनी की चुनाव इक्विटी शेयर पूंजी में उल्लेख हिस्से के अनुसार में होंगे। एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिवाइजरी द्वारा नामांकन गए सामान्यी मालिकों के रजिस्टर में कट ऑफ तिथि (व्यावसायिक घंटी के बंद होने) पर रखा है, केवल पोस्टल बैलेट नोटिस प्राप्त करने और ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए हकदार है। एक व्यक्ति जो कट ऑफ तिथि तक संश्लेषणक नहीं है, उन्हें पोस्टल बैलेट नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य के लिए मानना ​​चाहिए। एक बार जब सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है, तो उस वोट को ऐसे सदस्य द्वारा बाद में संशोधित नहीं किया जा सकता है।

ग. सदस्यों की व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को मौलिक मोड में शेयर रखता है, वह कंपनी के आर्टिफ़ मैसर रखाइलान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सी-1535, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020, फोन: 011-40450193-97, ईमेल : info@skylinertea.com या कंपनी को ईमेल आईडी : cs@megastarfoods.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और अनुक्रम संख्या प्राप्त कर सकेंगे। 3 व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक डीमैट मोड में शेयर रखते हैं, उन्हें अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग से संबंधित निर्देशों के लिए कंपनी की वेबसाइट <https://www.megastarfoods.com/> पर या सीडीएसएल की वेबसाइट <https://www.evotingindia.com> पर कंपनी के पोस्टल बैलेट नोटिस के नोट्स देखें। लॉगिन आईडी, पासवर्ड, प्रमाणिकरण और ई-वोटिंग प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया पहले से ही पोस्टल बैलेट नोटिस के नोट्स में दी गई है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसका सतर्क हैं। जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपना ईमेल पते अपडेट नहीं किए हैं, उन्हें नीचे नोट (सी) में दी गई प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी जाती है।

घ. कंपनी के साथ ईमेल आईडी के पंजीकरण के लिए, कृपया सभी द्वारा निर्धारित परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/ MISRD_RTAMB/PCR/2021/655 तिथि 03.11.2021 के अनुसार फॉर्म ISR-1 के माध्यम से आवश्यक विवरण प्रदान करें और निर्धारित दस्तावेजों के साथ कंपनी को cs@megastarfoods.com पर या आर्टिफ़ को info@skylinertea.com पर भेजें करें। कोई भी सदस्य जिन्हें नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वह कंपनी की वेबसाइट <https://www.megastarfoods.com/> से इसे डाउनलोड कर सकता है और लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए नोटस में दिए गए निर्देशों का पालन कर सकता है। डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्यगण, कृपया अपने संबंधित डिवाइजरी पॉसिबिलिटी (सीडी) के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें।

ङ. जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस नहीं मिला है, वे cs@megastarfoods.com पर लिखकर कंपनी में आवेदन कर सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट www.megastarfoods.com पर जा सकते हैं। पोस्टल बैलेट सूचना सीडीएसएल की यानी ई-वोटिंग की सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी की वेबसाइट www.evotingindia.com पर और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <https://www.bseindia.com> / और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <https://www.nseindia.com> पर पर प्रदर्शित किया गया है।

डॉर्ड ने श्री अजय अरोड़ा (सदस्यता संख्या 2191; सीपी संख्या 993) ए. अरोड़ा एवं कंपनी प्रिविटेसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के प्रोपराइटर को पोस्टल बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग के संचालन और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्राप्त वोटों की जांच करने के लिए क्यूटिनाइज्ड के रूप में नियुक्ति किया है।

ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलेट का परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार, 05 अप्रैल, 2025 को या उसके पहले घोषित किया जाएगा। घोषित परिणाम, क्यूटिनाइज्ड तरीके की रिपोर्ट के साथ, परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट www.megastarfoods.com और सीडीएसएल की वेबसाइट <https://www.evotingindia.com> पर डाल दिए जाएंगे और साथ ही बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

यदि सदस्यों के पास ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलेट के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो वे <https://www.evotingindia.com> के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध संश्लेषणकों के लिए प्राप्त पुछे जानेवाले प्रश्न (एफएयूए) और श्रेयकार के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर कॉल कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdsindia.com पर एक अनुरोध भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश शर्मा, सीनियर मैनेजर, (सीडीएसएल) द्वारा निर्धारित संचित (इडिया) लिमिटेड, 2 गिंग, 25वीं मंजिल, मेराथन फ्यूचरएक्स, महात्मा मल कांण्डरुड, एन एम जेडी मार्ग, लोवर परेल (मुंबई), मुंबई-40013 को भेजा जा सकता है या helpdesk.evoting@cdsindia.com पर एक ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर कॉल कर सकते हैं। सदस्यगण कंपनी की कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी सुश्री दीपाती लखाना से cs@megastarfoods.com पर या +91 1881 2440403 की भी संपर्क कर सकते हैं।

कुने मेगास्टार फूड्स लिमिटेड

हस्ता./-

(विकास नाथ)

स्थान : चंडीगढ़

दिनांक : 03-03-2025

अग्र सह प्रबंध निदेशक

सीआईएन : 05122585

निष्पत्तियां

इंडियन पोर्ट रेल एंड सेवेस कोर्पोरेशन लिमिटेड
(प्राप्त, चीन एक्सपोर्ट एवं इम्पोर्ट, भारत सरकार के अंडीय संयुक्त उद्यम) SAGARMALA

बीबी को-ऑपरेटिव, निम्न पत्ता, मुंबई प्लॉट 2/एच/एच/एच, एच. पी. मार्ग, मंगला (पूर्व), मुंबई - 400010
फोन नं. 022-6656 8335 फैक्स नं. 022-6656 8336 ई-मेल : hr@iprcil.in
CIN No: U60300DL2015PLC282783 (AN ISO 9001, 14001, 45001 & 37001 Certified Company)

विज्ञापन सं. आयपीआरसीएल/मुंबई/मा.सं./भर्ती 01/2025

निम्नलिखित पदों के लिए अनुभव प्राप्त तथा परिणाम उन्मुख भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहे हैं।

- 1) मुख्य महाप्रबंधक (संचालन एवं बीडी)/ई-01 मुंबई, 2) मुख्य महाप्रबंधक (परियोजनाएं)/ई-01 कोलकाता, 3) मुख्य महाप्रबंधक (एस एवं टी)/ई-01 मुंबई, 4) मुख्य महाप्रबंधक (सिखित)/ई-01 मुंबई, 5) मुख्य महाप्रबंधक (विद्युत)/ई-01 मुंबई, 6) मुख्य महाप्रबंधक (परियोजनाएं)/ई-03 01 विशाखापट्टनम, 01 चेन्नई, 01 अहमदाबाद, 7) संयुक्त महाप्रबंधक (मा.सं.) ई-05/उप महाप्रबंधक (मा.सं.) ई-4 01 मुंबई, 8) उप महाप्रबंधक (सिखित)/ई-4 01 मुंबई, 9) उप महाप्रबंधक (ई-4)/वैरि प्रबंधक (ई-3)/प्रबंधक (ई-2) (परियोजनाएं) - 01 विशाखापट्टनम, 10) वैरि प्रबंधक (ई-3)/प्रबंधक (ई-2) (टैक) - 01 मुंबई, 11) वैरि प्रबंधक (ई-3)/प्रबंधक (ई-2) (प्रमाण तज्ञ) - 01 मुंबई, 12) प्रबंधक (बी.डी) ई-2 04 01 कुसमुंडा, 01 तुलिकोरीन, 01 लवण, 01 कोलकाता, 13) प्रबंधक (पालायन) ई-3 01 टिकन, 01 लुनाही, 01 लवण, 14) प्रबंधक (सिखित) ई-2 01 विशाखापट्टनम, 15) प्रबंधक (ई-2)/उप प्रबंधक (ई-1) (आईटी) - 01 मुंबई, 16) उप प्रबंधक (एस एवं टी)/ई-1 01 मुंबई, 17) उप प्रबंधक (वित्त एवं सेवा)/ई-1 01 बुलनेस्वर, 18) परियोजना स्थल अधिवृत्ता (सिखित-10, विद्युत-04, एस एवं टी-03 तथा लोको/वायिकी-01 भारत में कही भी), 19) रसायन/इस्

